INDIA PESTICIDES LIMITED

An ISO 9001 2015, 14001:2015, 45001:2018 and 10002:2018 Company
CIN No. U24112 UP1984PLC006894



Water Works Road, Alshbagh, Lucknow - 226 004 (INDIA) Tel.: +91-522-2653602, 2653603, 2653622, 4041014

Fax +91-522-2653610

Website: www.indiapesticideslimited.com E-mail: info@indiapesticideslimited.com

Date: July 23, 2021

To

The Manager

Department of Corporate Services

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 543311

ISIN:INE0D6701023

To

The Manager

Listing Department,

National Stock Exchange of India Limited.

Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai-400051

Symbol: IPL

ISIN:INE0D6701023

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for Quarter ended June 30, 2021.

In continuation of our letter dated July 22, 2021and in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Extract of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for Quarter ended on June 30, 2021published in the Financial Express (All Edition) in English daily and Jansatta (All Edition) in Hindi daily dated July 23, 2021.

Kindly take the above on record.

Thanking You,

For India Pesticides Limited

(AJEET PANDEY)

adopaudly.

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: A42500

CORONAVIRUS GAINING HOLD

Tokyo's fraught Olympics set to begin after decade of drama

LISA DU & YUKI HAGIWARA July 22

WHEN A NEARLY empty National Stadium in Tokyo lights up on Friday evening in Japan to mark the beginning of delayed Summer Olympics, Covid-19's scar on the event will be glaring.

Gone will be the celebratory cheer that accompanies the start of any Games. Instead of thousands in the audience, there will be empty stands and performers in masks. For the first time in history,

events at Tokyo 2020 will be held without spectators and winners will place their own medals around their necks. Delegations landed amid the looming threat of the infectious delta variant, which has triggered case surges throughout Asia. Athletes social distance in the Olympic Village and eat between plastic barriers in the cafeteria.

"To be honest, I did not expect the Olympics to be happening like this. I thought the coronavirus would be gone or settled by the time the Olympics started,"Tokyo 2020 chief Toshiro Muto told a press briefing earlier this week. "It hasn't, and in some ways the problem has gotten more seri-

Covid has been only the latest, albeit biggest, challenge for an Olympics that's been mired in drama for nearly a decade, from a scrapped stadium design to a bribery probe. The



senior officials who championed the bid — including former Prime Minister Shinzo Abe — are no longer in office, undone by scandal and stress. The official cost of the Games has more than doubled to \$15.4 billion from its original estimate, including an extra \$3 billion needed for the delay and Covid-related safety measures.

Support from the Japanese public — long known globally as enthusiastic Olympic fans has waned amid concerns about the Games becoming a superspreader event. A July 3-4 survey by broadcaster JNN found that 34% wanted to cancel, or postpone them again. The country's largest companies have made moves to distance themselves, including global sponsor Toyota

Motor, which said this week it won't be airing ads in Japan

that feature the Olympics.

Even though athletes and

other participants aren't allowed to interact with the Japanese public, concerns have grown over the past week about the potential for outbreaks in the so-called Olympic bubble. A handful of athletes have already tested positive for Covid, including an alternate for the US women's gymnastics team. And in another blow, the director of the opening ceremony was fired a day before the Games started for comments he made about the Holocaust two

decades ago. Japan's journey to the 2020 Olympics started more than a decade ago and was preceded by disaster. In March 2011, as officials were readying to announce another bid after losing out to Rio de Janeiro for 2016, a magnitude-9.0 earthquake struck off the northeastern coast and caused the worst nuclear disaster since Chernobyl.

"There was a strategic decision made to tie the Tokyo bid to reconstruction of the earthquake-devastated area as that would be the biggest appeal," recalled Yuji Ishizaka, a sports sociologist at Nara Women's University who researches the Olympics. The reconstruction theme was used initially to gain the acceptance of the Japanese public for the bid, and then later as a pitch to the International Olympic Committee, Ishizaka said.

Tokyo's first setback after winning the 2020 Games came in 2015, when the budget for its new national stadium - designed by late celebrity architect Zaha Hadid - swelled to over 50% its original estimate and was set to become the most expensive ever built. Under the pressure of falling support numbers, Abe scrapped the design in favor of a do-over.

"What was striking about it was just the indecision around it. They were all like, 'what should we do?" said Jules Boykoff, a professor at Pacific University in Oregon who has written several books on the Olympics. "That really opened my eyes. Maybe this safe pair of hands isn't so safe after all."

Former Pak diplomat's daughter murdered: Report

A FORMER PAKISTANI diplomat's daughter has been murdered in Islamabad, according to a media report on Wednesday, just days after a major diplomatic row broke out between Pakistan and Afghanistan over the alleged abduction of the daughter of Afghanistan's Ambassador in

(AMI)

Islamabad.NoorMukadam,27, daughter of Shaukat Mukadam, was found dead in the capital's upscale Sector F-7/4 area on Tuesday, Dawn newspaper reported. Mukadam has in the past served as Pakistan's ambassador to South Korea and Kazakhstan.

AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

Registered Office: Thergaon, Pune - 411033

Tel.: 020-30613333 Fax: 020-40773388

Website: www.amjland.com, E-mail: admin@amjland.com

NOTICE OF THE 56™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the 56" Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Saturday, 21" August, 2021 at 11:30 a.m. (IST) through

Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical

presence of the Members at a Common Venue to transact the business as set out in

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

has vide its Circular dated 13th January, 2021 read with Circulars dated 05th May,

2020, 13" April, 2020 and 08" April, 2020 (Collectively referred to as "MCA Circulars")

permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. In compliance with these MCA Circulars and the

relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the

The Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2020-21 will be sent only by

electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the

Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI

Members holdings shares in dematerialized form, are requested to register their

e-mail addresses and mobile numbers with their relevant depositories through

depository participants and the Members holding shares in Physical form, are

requested to furnish their e-mail addresses and mobile numbers to the

KFin Technologies Private Limited (Kfintech), Registrar and Share Transfer Agent of

The Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will

also available on the Company's website www.amjland.com, websites of the Stock

Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at

www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members

attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its

Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Also

additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting and e-voting

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain

closed from 14th August, 2021 to 21th August, 2021 for determining the entitlement to

The dividend, if approved, by the Members at the AGM, will be paid electronically to

Members who have updated their bank account details for receiving dividend through

electronic means. For Members who have not updated their bank account details.

demand drafts will be sent to them in due course of time. To avoid delay in receiving

dividend, Members are requested to update their bank details with their Depository

Participants (where shares are held in dematerialised mode) and with KFintech

As per the Income Tax, Act 1961, as amended by the Finance Act, 2020, the dividend

paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable, in the hands of

the Shareholders. The Company shall deduct Tax at Source ('TDS') at the time of

making payment of the said Dividend at prescribed rates. For the prescribed rates for

various categories, the Shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020

and amendments thereto. The Shareholders are requested to update their PAN with

the Company/KFintech (in case of shares held in physical mode) and Depositories

(in case of shares held in Demat Mode). The Shareholders are requested to

submit/upload the documents in accordance with the applicable provisions of the

Income Tax Act, 1961 with KFintech at https://ris.kfintech.com/form15 or by sending

hard copy of the said documents at the registered office of the Company through

registered post/courier before 12" August, 2021. The detailed documents required for

availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM and on the

Company's website at www.amjland.com. No communication on the tax

determination/deduction shall be entertained after 12" August, 2021.

National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com

reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Dividend that may be declared at the 56" Annual General Meeting.

during the AGM is provided in the Notice of the AGM.

(where the shares are registered in physical mode).

Circular dated 15" January, 2021 read with Circular dated 12" May, 2020.

the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM

Company will be held through VC/OAVM.

the Company at einward.ris@kfintech.com

Noor Mukadam was killed

after being shot at, the daily quoted the police as saying. A friend of Noorhas been arrested in connection to the murder. police said. The killing comes as a storm brews over the safety of diplomatic missions and its personnel in Pakistan.



Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	ended 31.03.2021
1.	Total Income from operations	1702.94	6489.54
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	420.21	1345.27
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	420.59	1349.05
6.	Equity Share Capital	111.79	111.79
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3782.99
8.	Earning Per Share (Face Value of Re. 1 each) (Not annualised)		
1	Basic	3.76	12.07
ii	Diluted	3.76	12.07

ļ	STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS					
SI.	Particulars	Three Months ended	Year ended	Quarter ended		
No.	(1.05)(0.5)(0.5)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Refer note)		
1.	Total Income	1740.80	6553.77	1175.10		
2.	Profit before tax	561.89	1799.65	325.23		
3.	Profit after tax	420.22	1345.44	244.07		
4.	Total Comprehensive Income	420.60	1349.22	243.06		

Notes:

- (a) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2021 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 22 July 2021 and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com)
- (b) The Consolidated Financial Results of the Group includes the result of 'Shalvis Specialities Limited' which was incorporated on 18" January, 2021 as wholly-owned subsidiary company of India Pesticides Limited. Accordingly comparative consolidated results for corresponding period are not applicable and hence cannot be presented.
- (c) (i) The previous periods figures have been re-grouped / re-classified wherever required to conform to current periods classification. (ii) The Statement also includes the results for the guarter ended 31" March, 2021 and 30" June, 2020 presented based on the information complied by the management after making necessary adjustments to give a true and fair view of the results in accordance with IND AS, which have not been subjected to limited review or audit by statutory auditors.

By Order of the Board For India Pesticides Limited

Place: Lucknow Date: 22.07.2021 Anand Swarup Agarwal Chairman DIN No. 00777581

China fines Tencent, technology giants over child exploitation

ZHEPING HUANG July 22

CHINESE INTERNET REGULATORS slapped fines on technology firms including Tencent Holdings and Alibaba Group Holding for spreading sexually suggestive content involving children. Kuaishou Technology, Tencent's QQ,

Alibaba's Taobao, Weibo and Little Red Book were ordered to remove the offending accounts and pay an unspecified amount in fines, the Cyberspace

Administration of China said in a statement on Tuesday. The penalties were issued as part of a campaign to tackle online content deemed "harmful to the physical and mental well-being of minors."

The agency will "step up the enforcement of laws and regulations, and pun-



ish those who violate the rules," CAC said

in the statement. "There will be a 'zero tolerance' approach toward issues that hurt minors."

In recent months, social media users and state news outlets have called out e-

commerce platforms where sellers use suggestive photos of child models to sell goods as well as manipulated gifs and videos that exploit minors.

The cyberspace regulator is also planning to tackle under-aged live-streaming, the quality of online education platforms, violent and sexually explicit animation, online communities and celebrity fan clubs as part of its campaign, the statement added.

The crackdown adds to the pressure on China's internet sector, which is already facing scrutiny over issues ranging from antitrust to data security.

The CAC this month burst into prominence after announcing a probe into Didi Global and unveiling rules that will require any company seeking to go public in a foreign country to seek its **—BLOOMBERG** approval.

Place: Mumbai

Date: July 22, 2021

For AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

Place: Pune Shrihari Waychal Date: 21st July, 2021 Company Secretary

INDCON CHEMICALS LIMITED SUCCESS is the sweetest fruit of Patience & Hard work



THANK YOU INVESTORS FOR PLACING YOUR TRUST AND CONFIDENCE IN US

THE BOARD OF DIRECTORS OF HINDCON CHEMICALS LIMITED PROPOSED A DIVIDEND OF RS. 1.50 PER SHARE

F.Y. 2020-21 will be remembered as the year of COVID-19. As the pandemic swept the globe, it caused an unprecedented public health crisis that threw the world economy into a recession. Yet, even in this very challenging environment, we were able to deliver solid results, thanks to our strong balance sheet and business model, proving once again that Hindcon is a reliable partner for all its stakeholders. We are committed to our philosophy of returning cash to shareholders and the Board is pleased to propose a dividend of Rs. 1.50 per share, subject to the approval of shareholders.

- Sanjay Goenka, CMD, Hindcon Chemicals Limited

GROWT	GROWTH STORY IN LAST 3 YEARS							
Financial Year	Consolidated PAT (in ₹ Crore)	Dividend Percentage Per Share	Dividend Payout Ratio	Consolidated EPS (in₹)				
2018-19	2.82	6%	22%	3.68				
2019-20	2.84	9%	30%	3.71				
2020-21	4.52	15%	35%	5.89				

HINDCON CHEMICALS LTD

SODIUM SILICATE CEMENT ADDITIVES | CONSTRUCTION CHEMICALS | TURNKEY PROJECTS

CIN: L24117WB1998PLC087800 Regd. Office: Vasudha, 62B Braunfeld Row Kolkata - 700 027, West Bengal, India

financialexp.epa



FINANCIAL RESULTS

₹ in Lakhs

	Three months	Three months ended / as at		
Particulars	June 30, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021	
r articulars	Audited	Audited	Audited	
Premium Income (Gross) ¹	380,756	339,421	1,432,033	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	20,150	53,104	195,395	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	20,150	53,104	195,395	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	15,163	39,810	147,305	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] ²	NA	NA	NA	
Equity Share Capital	45,465	45,448	45,459	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	713,738	607,805	698,055	
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each)				
Basic (not annualised) (in ₹)	3.34	8.76	32.41	
Diluted (not annualised) (in ₹)	3.32	8.74	32.27	

1. Premium income is gross written premium gross of reinsurance and net of applicable taxes.

The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to Insurance companies in India.

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly and year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly and year to date Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and the Company (www.icicilombard.com)

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-**Bhargav Dasgupta** Managing Director & CEO DIN: 00047728

ICICI Lombard General Insurance Company Limited. ICICI trade logo displayed above belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard GIC Ltd. under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard GIC Ltd. ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. IRDA Reg.No.115. Toll Free 1800 2666. Fax No - 022 61961323. CIN (L67200MH2000PLC129408). customersupport@icicilombard.com, www.icicilombard.com, UIN ADV/12683

New Delhi

Adfactors 171

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Regd. Office: Neelam Centre, 'B' Wing, 4" Floor, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030.

Corporate Office: Cnergy IT Park, Unit A2, 3rd Floor, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025. Phone: 022-2439 5200/2439 5500 Fax: 022 - 2431 5331/ 2431 5334 CIN: L24390MH1976PLC019380 Website: www.jbcpl.com E-mail: secretarial@jbcpl.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS INFORMATION REGARDING 45™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

. Shareholders of the Company are hereby informed that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/OAVM on Thursday, September 09, 2021 at 3.30 p.m.(IST), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the meeting.

Electronic copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent to all the Shareholders whose email address is registered with the Company or depository participant/depository. The said Notice and the Annual Report will also be available on the Company's website at www.jbcpl.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

The shareholders who have not registered their e-mail address are requested to follow the following process to register the same:

· Shareholders holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail address with the Company are requested to register their e-mail address by writing to the Company at secretarial@jbcpl.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address, self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any identity proof in support of address.

· Shareholders holding shares in dematerialsed form are requested to register/update their e-mail address with the concerned depository

Shareholders holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company or depository participant/depository need to follow the following process for procuring User ID and Password for remote e-voting and e-voting during the

(a) In case shares are held in physical mode, please provide your name, folio no., scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy), AADHAR (self- attested scanned

name, DP ID-Client ID, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy), AADHAR (self- attested scanned copy) by e-mail to secretarial@jbcpl.com. (c) Alternatively, shareholder may send an e-mail request to

the details mentioned above. 5. The shareholders holding shares in physical form need to follow steps mentioned in (a) above for registering their e-mail address with the Company, while the shareholders holding shares in demat mode are

requested to contact their depository participant/depository for the purpose. Shareholders are advised to opt for receipt of dividend through electronic transfer to avoid delay in receiving the dividend. Accordingly, the shareholders holding shares in demat mode are requested to update their complete bank details with their depository participant/depository. The Shareholders holding shares in physical

the PAN card, any address proof and cancelled cheque leaf. . In case of any query concerning participation in the AGM or payment of dividend, the shareholders may write to the Company at secretarial@jbcpl.com

For J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Date: 23/07/2021

Sandeep Phadnis Company Secretary

INDIA PESTICIDES LIMITED CIN No.: U24112UP1984PLC006894

Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly - 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

		(₹	in Millions)
SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	ended 31.03.2021
1.	Total Income from operations	1702.94	6489.54
	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	420.21	1345.27
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	420.59	1349.05
6.	Equity Share Capital	111.79	111.79
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3782.99
8.	Earning Per Share (Face Value of Re. 1 each) (Not annualised)	0.000	
1	Basic	3.76	12.07
ii	Diluted	3.76	12.07

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE

SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Refer note)
1.	Total Income	1740.80	6553.77	1175.10
2.	Profit before tax	561.89	1799.65	325.23
3.	Profit after tax	420.22	1345.44	244.07
4.	Total Comprehensive Income	420.60	1349.22	243.06

Notes:

quarter ended 30 June 2021 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 22 July 2021 and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com)

presented.

auditors.

By Order of the Board For India Pesticides Limited

Place: Lucknow Date: 22.07.2021



Place: Ahmedabad

Zonal Office, 'B' Block, Rudra Arcade, 132 Feet, Prive-In-Cross Road Memnagar, Ahmedabad-38005 PH: 079-27435663, 27431248, Fax: 079-27439668, Email: zoahmedabad@indianbank.co.in. Website: www.indianbank.in

Indian Bank

	SALE NOTICE CUM AUCTION					
Name of the Borrower	Description of the Vehicle under sale	Dues in the account	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Mon Deposit (EM (in Rs.)		
Nareshbhai	Model no. Hyundai Creta 1.6 CRDI SX (O), RTO no. GJ 01 HW 9015. Engine No. 620676 Chassis No. 433916		Rs. 7,25,000/-	Rs. 72,500/-		

Date of Opening bids: 02/08/2021, 1 00 pm at Zonal Office, Ahmedabad Place Indian Bank, Zonal Office. Ahmedabad Branch PH: 079-27435663, 27431248. TERMS AND CONDITIONS: 1. Tender Form can be collected from Indian Bank, Zonal Office, Ahmedabad on cash payment of Rs 50/-(Rs. Fifty only) 2. The Sealed tenders addressed to Authorized Office, Indian Bank, should be submitted by, on or before date 02/08/2021 upto 1.00 P.M. at Indian Bank, Zonal Office Ahmedabad Branch. For inspection contact Branch Manager, 3, After opening of tender on the date and time mentioned above, Authorised Office may open bidding between the available participants of the tender with a view to improve their offer to get maximum offer price for the Vehicle 4. The successful bidder at the time of auction sale shall pay 25% of the bid amount (Including of the EMD 10% of Reserve Price already deposited) immediately on the sale being knocked down in his favour and the balance within 15 days. 5. The Vehicle will not be sold below the Reserve Price. 6. The successful bidder shall bear the Legal Charges/Fees &incidental expenses namely, stamp duty etc. and other statutory dues attach to the Vehicle 7. The Authorised Officer has the absolute right to accept or reject the tender/bid or postpone/cancel/restart the auction without assigning any reason therefore. 8. The sale is subject to confirmation by the Bank. Date: 20.07.2021 **Authorized Officer**

Public Notice

Notice is hereby given that 1. Capt. Prasad Thergaonkar 2. LATE Monjima Sinha through her heirs 1. Capt. Prasad Thergaonkar R/at: 704, Emerald. Nyati Empire, Kharadi Bypass Road, Pune 411014, are negotiating to sale the premises mentioned hereinafter to my client.

SCHEDULE OF THE PROPERTY All the piece and parcel of premises bearing Flat No. 1506 on the 14TH Floor out of Building No. II, admeasuring about 96.18 Sq. Mtrs i.e. 1034.96 Sq. Ft. (carpet) corresponding to built up area about 124.11 sq. mtrs. i.e 1335.43 Sq.ft. including exclusive rights for the use of space for Single Car Parking in the complex named as "Gera's GreensVille II Trinity Towers' in "Gera's GreensVille Trinity Towers Co-operative Housing Society Ltd." constructed on land bearing Survey No. 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6 situated at Kharadi, Pune which is within the local limits of Pune Municipal Corporation and within the Registration District of the Sub Registrar, Taluka Haveli, District Pune, The said owners has assured my client that the said property is free from any encumbrances of whatsoever nature and the title of the owner is good, clear and marketable and he is absolute and in sole possession of the said property mentioned above. If any person having any interest or claim by way of sale inheritance exchange possession succession, lien, lease, donation, mortgage, attachment, charge, maintenance, easementary rights or otherwise in or over the said property is hereby called upon to inform in writing to the undersigned the objections giving details of such interest or claim along with documentary evidence in support thereof within 15 (Fifteen) days from the date of publication hereof, if no such objection is received within the aforesaid period my client will presume that no one has any objection to the said property and all such claims if any, shall deemed to have been waived and or abandoned my client shall complete the transaction with the said owner as if there are no claims of whatsoever nature on the said property and no objection/s will thereafter be entertained by my client.

ADV. Dnyanoba.S. Wadghule S.No. 49, Kokare Building, Chandan nagar Kharadi, Pune-411014 Date: 23/07/2021 Mb. 9822264880

Pune

Karve Road Branch: Ayurved Rasashala Building. Karve Road, Pune-411004 Ph.: (020) 25441199,25436313 E-mail: brmgr116@mahabank.co.in





Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act - 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 06/05/2021 calling upon the Borrower M/s. Saket Cottons Pvt Ltd. to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.1,32,17,650.00 (Rupees One Crore Thirty Two Lakh Seventeen Thousand Six Hundred and Fifty Only) Plus interest thereon 10.65% w.e.f 01/05/2021 within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules 2002, on this 19/07/2021. The Borrowers in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Maharashtra, Karve Road Branch for an amount mentioned hereinabove.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of Mortgaged Properties

1) Open plot with Bunglow No D-17, Mahesh Navale Nagar, Off Gulmohar Lane, Near Amrapali Mariage Hall, S. No 80 Savedi Ahmednagar within the local limits of Ahmednagar Municipal Corporation at village Ahmednagar.

2) Plot No C-53 in Supa Parner Industrial Area M I D C area of Hanga Ahmednagar at Village Hanga Dist. Ahmednagar outside the Municipal Limits of Ahmednagar together with construction of tin shed load bearing admeasuring about and 1000 sq mts.

PUNJAB & SIND BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

Date : 20/07/2021 Place: Pune

available, to redeem the secured assets.

Date: 17.07.2021 | Place: Mumbai

Authorised Officer and Chief Manager, Bank of Maharashtra

POSSESSION NOTICE (Rule 8 (1)]) (For Immovable Property)

WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the PUNJAB & SIND BANK under the securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3

of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 05.04.2021 mentioned on below column calling upon the Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the notice being and Interest thereon and other charges within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount The notice is hereby given to the Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules, 2002 on the date mentioned in the table. The Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of PUNJAB & SIND BANK, for an amount mention below and interest

Public Notice

Public at large is hereby informed that land bearing Survey No. 259/4/50, Lohegaon, Pune, adm. 00 H. 05 R is owned by Mr. Asid Sikandar Momin & Mr. Ayyaz Sikandar Momin AND Survey No. 259/4/55, Lohegaon, Pune, adm. 00 H. 03 R is owned by Mr. Sikandar Abdul Momin & Sau. Mumtaz Sikandar Momin. The said owners have agreed to grant development rights in favour of my Client Mr. Mitesh Naresh Bhayani & assured that their title to the respective holding is clear, marketable, free from encumbrances of any kind and not a subject of any kind of charge, attachment. However, if anybody is having any objection to the said deal or have any right, title, interest in the said properties, they are directed to inform me about their objection in writing within a period of 14 days, otherwise my client will presume that nobody is having any objection of any kind & he will complete the deal. No objection will be entertained thereafter. Hence this Public Notice SCHEDULE A. Survey No. 259/4/50, Lohegaon, Pune, adm. 00 H.05 R, bounded as - On or towards East- Survey No. 259/4/52, On or towards South- DP Road, On or towards West- Road, On or towards North- Survey No. 259/4/55 of Mr. Sikandar & Sau. Mumtaz Sikandar Momin B. Survey No 259/4/55, Lohegaon, Pune, adm. 00 H.03 R, which is bounded as- On or towards East- Remaining part of S. No. 259/4, On or towards South Survey No. 259/4/50 of Mr. Asif & Mr. Ayyaz Sikandar Momin, On or towards West- Road, On or towards North-Remaining part of Survey No. 259/4, together with all ancillary and easementary rights.

ADV. ANAND M. CHANODIA Office No. G110, Ground Floor, Ashoka Plaza, Nagar Road, Pune Between Hyatt & Ibis Hotel, Viman Nagar, Pune 411014 Date - 22/07/2021 Mobile No. 9096324252, 9422080572

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mrs. BHUVANESHWARI S. & Mrs. KRITIKA SUBRAMANIUM (for themselves and being legal heirs of Late Mr. T.R. Subramanian) , Both R/at: Sidheshwar Nagar, Vishrantwadi, Pune 411015, are the owner of the property (residential flat/s) situated at village Pimpri Waghere. more particularly described in the schedule written hereunder and the said owner has agreed to sell and transfer the said property absolutely unto and in favour of my client and he has assured my client that the said property is free from encumbrance and that his title to the said property is free from encumbrance, clear and marketable. An person having any claim against or in respect of the said property or any part thereo by way of sale, mortgage, exchange, charge, lease, lien, inheritance, gift, trust maintenance, possession, easement or otherwise are hereby required to make known the same to the undersigned at the address mentioned below within 07 (Seven) days from the date hereof, failing which the transaction shall be completed without any reference to such claims and the claims if any will be deemed to have been waived and/or abandoned.

SCHEDULE: All that piece and parcel of the residential property i.e. Flat bearing No. 14. on the Third Floor, in Building "C1", in the scheme known as "VAIBHAV NAGAR BLDG C1 CO-OP HOUSING SOCIETY LTD." flat admeasuring 660 Sq. Ft i.e. 61.34 Sq. Mtrs Carpet Area, constructed on Survey No. 6, Hissa No. 2, 3, 4 and 5, having corresponding City Survey No. 871, Situated at village Pimpri Waghere, Tal-Haveli, Dist-Pune, & within the limits of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation and Registration Jurisdiction of Sub-Registrar, Haveli No. I to XXVI, Taluka Haveli, Dist -Pune. (Alongwith all the easementary rights and appurtenants attached thereto). Deepak P. Suhanda (Advocate) Date: 22-07-2021 Shop No. 1 & 2, Awanti Aprtment

Pimpri. Pune – 411 017. **Mob- 966566006d**

Bank of India Relationship beyond banking Satara Road Branch: Kadam Plaza, Shradhha Niketan, Plot No. X + A1, S.No.7/1, Katraj-Satara Road, Opp. Bharati Vidyapeeth, Pune-411046,Ph. No. 020-24360050/90 Email: SataraRoad.Pune@ bankofindia.co.in

Appendix-IV [See Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 09/12/2019 calling upon the Borrower Shri. Ramdas Jagnnath Gade and Mrs. Manisha Ramdas Gade to repay the amount mentioned in the notice being Rs.13.86.429.44 (Rupees Thirteen Lacs Eighty Six Thousand Four Hundred Twenty Nine Paisa Fourty Four) and Rs.1,55,616.42 (Rupees One Lac Fifty Five Thousand Six Hundred Sixteen Paisa Forty Two) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby

given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 20/07/2021.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount of Rs. 13,86,429.44 and Rs.1,55,616.42 and interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section(8) of section

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Flat No.205A Second floor Mayureshwar Ashraya, Final Plot No. 486 A In Survey No. 1A, Parvati, Pune-411009 Within the registration Sub-district Haveli and District Pune. Bounded: On the North by: By Road, On the South by : By Flat No.205, On the East by : By Open Space, On the West by By passage & Flat No. 203.

Date : 20/07/2021 Place : Pune

BO - Malad

Email: m0926@psb.co.in

Chief Manager & Authorised Officer. Bank of India

FORM NO. URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI (Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1)

of the Companies (Authorised Register) Rules, 2014) Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at The Registrar of Companies, Pune, Maharashtra, that M/s. MERITS HR STAFFING CONSULTING LLP, a Limited Liability Partnership registered under Limited Liability Partnership Act 2008 may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares in the name and style MERITS HR STAFFING CONSULTING PRIVATE LIMITED.

The principal objects of the Company are as follows: To provide Management Consulting and Advisory Services for staffing

companies in India and abroad. To provide training and corporate guidance to candidates & staff of clients as per need

To provide recruitment assistance for human resources including campus interviews in India and abroad for technical, accounting, management candidates etc. A copy of the draft memorandum and articles of association of the

proposed Company (MERITS HR STAFFING CONSULTING PRIVATE LIMITED)

Code 122050, within twenty one days from the date of publication of

may be inspected at the office at Flat No 16A, Building No A1, Dharamveer Park Bibwewadi Pune MH 411037. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT, Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin

this notice, with a copy to the Company at its registered office.

Dated this: 22/07/2021 FOR MERITS HR STAFFING CONSULTING LLP

Sign/-Mr. Jay Satish Patil Designated Partner DPIN: 07768703 Add: Chandrakamal Banglow Sector C. Near Navshva Gannat Mandir, Anandwalli, Sawarkar Nashik Maharashtra India 422013

Sign/-Mrs. Shriya Arun Chandra Designated Partner DIPN: 07768699 Add: W/o Jay Patil, Chandrakamal Bunglow, PNo.66, SNo.65 Near Navshya Ganpati Anandvalli. Sawarkar Nagar Nashik Maharashtra India 422013

WELSPUN CORP WELSPUN CORP LIMITED (Corporate Identification Number - L27100GJ1995PLC025609)

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110. Fel No. + 91 2836-662222 Fax : + 91 2836-279060, Email - CompanySecretary_WCL@welspun.com Website: www.welspuncorp.com Corp. Office: Welspun House, 5th Floor, Kamala Mills Compound napati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. Tel No. 022-2490 8000, Fax: 022-2490 8020

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 29, 2021, inter alia, to consider and approve the standalone as well as the consolidated Un-audited Financial Statements o the Company for the guarter ended June 30, 2021.

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Designate Persons, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 i closed from Thursday, July 1, 2021 till 48 hours after the declaration of the results.

> For Welspun Corp Limited Pradeep Josh **Company Secretary** FCS- 4959

JINDAL SAW LIMITED



Mumbai, July 22, 2021

REGD. OFF.: A-1.UPSIDC INDL. AREA. NANDGAON ROAD. **KOSI KALAN, DISTT. MATHURA - 281 403** CIN: L27104UP1984PLC023979

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and **Protection Fund (IEPF) Authority**

This notice is hereby given pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 regarding transfer of all the shares in respect of which dividend has been unpaid and not claimed by the shareholders for the seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

In view of above provisions, the Company had intimated to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules for taking the appropriate actions.

The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority may note that the Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original shares certificates held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority and upon such issue of duplicate shares, the origina share certificates shall stand cancelled. Similarly, the shares held in demat mode shall also be transferred to IEPF Authority by signing the demat slips by the Company officials on behalf of such shareholders. The shareholders may further note that unclaimed shares transferred to IEPF Authority including all the benefits accruing on them, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

You are, therefore, informed to claim your unpaid/unclaimed dividend from 2013-2014 immediately or write otherwise to the Company. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 20th September, 2021 or such other date as may be extended the Company shall, with a view to comply with the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by due date as per the procedure stipulated in the Rules. The copy of the above Rules have been up-loaded by the Company at its website (i.e

www.jindalsaw.com) along with details of such shareholders and the shares due for transfer to IEPF Authority. You may visit the website of the Company for necessary information in this regard. In case of shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may

contact the Company Secretary, Jindal Saw Limited at Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066 Tel: 011-41462220, 011-41462237, E-mail

investors@jindalsaw.com For JINDAL SAW LIMITED Place: New Delhi SUNIL K. JAIN

Date: 22nd July, 2021

COMPANY SECRETARY FCS: 3056

P muthoot

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO - U65922KL2010PLC025624, Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo,

Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517 PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 n exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what

Sr. No.	Name of Borrower / Co-Borrower/ Guarantor	Description of Mortgaged Property	Property Possession Date	Total Outstanding Amount	Reserve Price (Rs.)	E.M.D. (Rs.)	AUCTION DATE
1	SANJIT BALBAHADUR SONI LAN No. 16100010518	BLOCK NO 3 TO 10 12 19 362, PLOT NO 2 2 1, O F A A R A D H A N A L A K E TOWN, VIVHAG 2, HALPATIWAS JOLWA, GUJARAT, Surat, PALSANA, INDIA	03-01-2020	1096223.02/- as on 19-07-2021	7,00,000/-	70,000/-	07-08-2021
2	RAJANI KHIMJIBHAI RASADIYA LAXMIBEN KHIMJIBHAI RASDIYA LAN No. 16100007506	FLAT NO 404,4TH FLOOR,BLDG NO B 3, NANDANVAN TOWNSHIP, KAMREJ, KAMREJ NANSAD ROAD,KAMREJ, GUJARAT, Surat,394185,INDIA	13-09-2019	688908.25/- as on 19-07-2021	4,50,000/-	45,000/-	07-08-2021
3	BHARATBHAI ARJANBHAI VAIRU ARJANBHAI VEJANANDBHAI VAIRU LAN No. 16100074218	FLAT NO 405 4TH FLOOR,R S NO 87 1, K A S H I S H A P T , JAMALPORENAVSARI,GUJARAT,Navsar i, 396445,INDIA	07-03-2019	2712826/- as on 19-07-2021	12,00,000/-	1,20,000/	-24-08-2021
4	MAHESWAR KANHUCHARAN DAS KAMINI MAHESWAR DAS LAN No. 16100073421	FLAT NO 102 1ST FLOOR,SY NO 104 1 2645,SHIV SHAKTI RESIDENCY B WING, VARELI, PALSANA, GUJARAT, Surat, 394327, INDIA	14-06-2021	687335.12/- as on 19-07-2021	6,80,000/-	68,000/-	24-08-2021
5	GOPAL GANGARAM PATIL REKHABEN GANGARAM PATIL LAN No. 16100068035	FLAT NO G 101, PLOT NO 28, 1ST FLOOR G BLDG, SUKH SAGAR RESIDENCY, NR PANDESARA GHB, PANDESARA, GLUARAT Surat 394221, INDIA	14-06-2021	748273.97/- as on 19-07-2021	5,00,000/-	50,000/-	24-08-2021

Inspection Date & Time: 29-07-2021 & 30-07-2021 at 10.00 AM to 05.00 PM; For LAN No. 16100010518 & 16100007506 Sale Time & Place: 10.00 AM to 03.00 PM

10.00 AM to 03.00 PM Muthoot Housing Finance Company Limited, 2/653/2-3,2nd floor, Mota Dastur Mohhhallo, Behind Riva House, Udhna Darwaja, Surat-395002. Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:- Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as also the terms and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition. including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited", towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price at the above mentioned office address of The Authorised Officer on one working day before the date of Auction. 4) Offers that are not duly filled up or offers not accompanied by the EMD or Offers received after the above date and time prescribed herein will not be considered / treated as invalid offers, and accordingly shall be rejected. The Earnest money deposit shall not carry any interest. 5) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card. Driving license etc. 6) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 7) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 8) The Property shall be sold to the highest bidder / offer, subject to acceptance of the bid by the secured creditor, i.e., M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. The undersigned has the discretion to accept or reject any offer / Tender without assigning any reason. 9) All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 10) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the purchase amount (after adjusting the E.M.D. already paid) within 2 working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 11) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 30 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized officer. In the event of the default in payment of the balance 75% of the sale price or any part thereof, within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited and the secured creditor will be at liberty to sell the property once again and the defaulting Purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum already paid towards the purchase thereof, 12) The Demand draft / Pay order deposited towards the Earnest money shall be returned to unsuccessful bidders. 13) The immovable property described herein above shall remain and be at the sole risk of the successful purchaser in all respects including loss or damage by fire or theft or other accidents, and other risk from the date of the confirmation of the Sale by the undersigned Authorized Officer. The successful bidder shall not be entitled to annul the sale on any ground of whatsoever nature. 14) The Authorized officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers and M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd., as secured creditor, reserves its right to reject any or all bid(s) without assigning any reasons. In case, the bids are rejected, Authorized officer can negotiate with any of the tenderer or intending bidders or other parties for sale of the property by private treaty. 15) No persons other than the intending bidders/offerer themselves, or their duly Authorized representative shall be allowed to participate in the auction/sale proceedings, 16) The Authorized officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 17) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the Secured Creditor are tendered by the above name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthcot Housing Finance Company Ltd. The borrower/guarantor/mortgage of LAN No. 16100010518 & 16100007506 are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE6(2), 8(6) & 9(1) OF SARFAESI ACT and LAN No. 16100074218 & 16100073421 & 16100068035 are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE6(2), 8(6) & 9(1) OF SARFAESI ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be

Authorised Officer

Place: Guiarat, Date: 23/07/2021

s", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

thereon and cost etc. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time Date of Demand Notice Name of Borrower's & Guarantor's Amount O/s Description of the Property (ies) Date of Possession (in Rs) 1) Mrs. Tajbano Mansuri, 2) Mr. Haroon Mansuri, 3) Mr. Noor Mohammed Mansuri Rs. 4036300.30 as on 05.04.2021 4) Mr. Usman Mansuri (Guarantor), Mr. Fakir Mohammed Mansuri (Guarantor) 31.03.2021 + Interest w.e.f Flat no. 701, 7th Floor, Wing C, Orchid, Orchid 'C' CHSL, Gaurav Valley, Near GCC 01.04.2021 & other 17.07.2021 Club, Hatkesh, Mira Road East, Thane - 401107 Authorized Officer, Punjab & Sind Bank

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001, Rajasthan, (India). (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/ Mortgagers/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

is free to take possession for sale of the mortgage properties/ secured assets as given below. Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written

Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

Date and Amount of Demand Name of the Borrower/ Co-Borrower / Guarantor Notice Under Sec. 13(2) Mortgaged Property (Loan A/C No.) OD1921212425262400 AND SCHEDULE OF HYPOTHECATION: -21-Jun-21

Sunitaben Kamleshbhai Butani Through Wife And Legal Heir Of Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani, Ms. Purvaben Kamlesh Butani (Minor) Through Guardian Mrs. Sunitaben Kamleshbhai Butani Legal Heir Of Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani, Mr. Bacchubhai Govindbhai Butani Father And Legal Heir Of Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani, Mrs. Muktaben Bacchubhai Butani W/o Bacchubhai Govindbhai Butani Mother And Legal Heir Of Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani, Mrs. Sunitaben Kamleshbhai Butani W/o Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani (legal Heir Of Late Kamlesh Kumar Bachu Bhai Butani And

(Guarantor)

Date: 22/07/2021

Place: Ahmedabad

L9001160521052540, M/S. B. S. Sales Mrs.

₹ 21,73,981.00 & Hypothecation of the Entire present and future ₹4,15,081.00 current assets of the borrower comprising inter-Total Amount alia of stocks of raw material, work in progress, finished goods, receivables book debts and ₹ 25,89,062.00 Rupees Twenty-Five Lakh Eighty-Nine

other current assets arising out of the project. 1. All that part and parcel of Property an open N.A. land of Plot No.151/Paiki land admeasuring 52.53Sq. Meters (Known as Sub plot No.150+151+152/3) of R.S. No. 45/Paiki and 64/ 1 & 64/2 total land admeasuring Ac. 7.22 Guthas of Joshipura known as "Pawan Park", Central Bank of India street, Near Genius Public School, of khalilpur Road, Joshipara, Junagarh, within the limits of owned by Mr. Kamleshkumar Bachubhai Butani.

Inspection Date & Time: 09-08-2021 & 10-08-2021 at 10:00 AM to 05:00 PM: For LAN No. 16100074218 & 16100073421 & 16100068035 Sale Time & Place :

sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in ENGLISH and VERNACULAR newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be consider as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower / guarantor/mortgagers pays the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

> Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited Mumbai

financialexp.epapr.in

participant/depository.

copy) by e-mail to secretarial@jbcpl.com. (b) In case shares are held in dematerialsed mode, please provide your

evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing

form may give their dividend mandate by sending a request at secretarial@jbcpl.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested copy of

Place: Mumbai

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

SI. No.	Particulars	Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021
1.	Total Income from operations	1702.94	6489.54
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	420.21	1345.27
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	420.59	1349.05
6.	Equity Share Capital	111.79	111.79
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earning Per Share		3782.99
	(Face Value of Re. 1 each) (Not annualised)	0.000	

1	STANDALONE UNAUD	ITED FINAN	CIAL RESULT	rs
SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Refer note)
1. 2. 3.	Total Income Profit before tax Profit after tax	1740.80 561.89 420.22	6553.77 1799.65 1345.44	1175.10 325.23 244.07
12000	Profit before tax	(Unaudited) 1740.80	(Audited) 6553.77	150.10

(a) The above is an extract of the unaudited financial results for the

respectively. (b) The Consolidated Financial Results of the Group includes the result of 'Shalvis Specialities Limited' which was incorporated on 18th January, 2021 as wholly-owned subsidiary company of India Pesticides Limited. Accordingly comparative consolidated results for corresponding period are not applicable and hence cannot be

(c) (i) The previous periods figures have been re-grouped / re-classified wherever required to conform to current periods classification. (ii) The Statement also includes the results for the guarter ended 31" March, 2021 and 30th June, 2020 presented based on the information complied by the management after making necessary adjustments to give a true and fair view of the results in accordance with IND AS, which have not been subjected to limited review or audit by statutory

> Anand Swarup Agarwal Chairman DIN No. 00777581

Thousand Sixty Two Only as on 21-Jun-21

AU Small Finance Bank Limited

व्यापारिक पोत के चालक दल के 12 सदस्यों को बच

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 जुलाई।

गुजरात के उमरगाम तट के पास भारतीय तटरक्षक (आइसीजी) के समन्वय से एक व्यापारिक पोत ने एक अन्य संकटग्रस्त व्यापारिक पोत के चालक दल के 12 सदस्यों को बचा लिया। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुंबई में तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को बुधवार दोपहर को जानकारी मिली कि व्यापारिक पोत कंचन, चालक दल के 12 सदस्यों के साथ गुजरात के वलसाड में उमरगाम के निकट फंस गया है। पोत में दुषित ईंधन के कारण इसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और बिजली चली गई थी।

पोतों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जाल को सिक्रिय किया। उसने बताया कि कंचन के पास मौजूद व्यापारिक पोत हरमीज ने तत्काल जवाब दिया और वह तुरंत कंचन की ओर मुड़ गया। तटरक्षक ने कहा, क्षेत्र में मौसम खराब था और 50 समुद्री मील की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और लहरें तीन-3.5 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही थीं। हरमीज ने मुश्किलों के बावजूद बुधवार रात चलाए गए एक साहसिक अभियान में कंचन के चालक दल के सभी 12 सदस्यों को बचा लिया।

शेष मुद्दों के जल्द हल के लिए भारत ने दबाव बनाया

बैठक चली।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्र

भारत ने द्विपक्षीय समझौतों व प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शेष मद्दों के जल्द समाधान के लिए गुरुवार को फिर चीन पर दबाव बनाया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से पिछले हफ्ते कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व धैर्य बनाए रखना ही 1988 से संबंधों के विकास की आधारशिला रही है। जयशंकर और वांग के बीच 14 जुलाई को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के इतर एक घंटे लंबी

लद्दाख गतिरोध

बागची ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि कमांडर स्तर के अगले दौर की वार्ता का आयोजन जल्द से जल्द होना चाहिए जहां दोनों पक्ष शेष मुद्दों पर चर्चा करें और परस्पर स्वीकार्य समाधान की तलाश करें। प्रवक्ता ने बताया कि जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वर्तमान स्थिति का लंबा खिंचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और इसका संबंधों पर नकारात्मक असर पड रहा है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और धैर्य ही 1988 से संबंधों के

विकास की आधारशिला रही है। पिछले वर्ष यथास्थिति बदलने के प्रयास से संबंधों पर काफी असर पड़ा है और यह 1993 और 1996 के समझौतों का अपमान भी है।

उन्होंने कहा, 'इसलिए परस्पर हित में दोनों पक्ष एलएसी पर शेष मुद्दों के समाधान के लिए काम करें और द्विपक्षीय संबंधों व प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें।' बागची ने कहा कि जयशंकर-वांग के बीच बैठक में यह भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष स्थिरता सुनिश्चित करेंगे और कोई भी पक्ष एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा जिससे तनाव बढे। चीन और भारत के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर सैन्य गतिरोध बना हुआ है।

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड [कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377] पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 फोन : 011-46107318, ई-मेल : pariksha.delhi@gmail.com वेबसाइट : www.pfil.in

शेयरधारकों को 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 को सुबह 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रोन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम की सूचना, जो एजीएम के आयोजन हेतु सर्कुलेट की जा रही है, में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जानी निर्धारित है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी जारी रहने को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से तथा भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ने भी अपने सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा सर्वुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सर्कुलर्स) के माध्यम से एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से, सदस्यों की उभय स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बगैर, करने की अनुमति दी है। इन सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबद्ध प्रावधानों एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम 20–08–2021 को सुबह 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्टॉनिक विधि से भेजी जानी है. जिनकी ई-मेल आईडी ज कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पहले से पंजीबद्ध हैं । सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.pfil.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम की सूचना एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेत् एजेन्सी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने हेत् अनुदेश एजीएम की सचना में दिए गए हैं। बैठक में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविद्या ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्द करा रही है कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ("ई-वोटिंग") उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है, कृपया वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें।

मौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्यों के लिए - कृपया आवश्यक विवरण जैसेकि फोलियो नंबर, शेयरचारक का नाम ई-मेल द्वारा pariksha.delhi@gmail.com को

ई—मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं

वे शेयरधारक जो कट—ऑफ—डेट को शेयरों के धारक हैं, उनको एजीएम की 28वीं सूचना, लाग् कानूनों के अनुसार प्रेषण हेतु, यथासमय उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाएगी।

स्थान : दिल्ली तिथि : 22-07-2021

SRF

अभौतिक (डीमैट) रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट (डीपी) से सम्पर्क करके अथवा pariksha.delhi@gmail.com को ई-मेल करके अपनी

वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड

देवराज सिंह भदौरिया कम्पनी सचिव

-INDIA PESTICIDES LIMITED CIN No.: U24112UP1984PLC006894

Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly – 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021**

		(<	in Millions)
SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	ended 31.03.2021
1.	Total Income from operations	1702.94	6489.54
1.00	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	420.21	1345.27
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	420.59	
6.	Equity Share Capital	111.79	111.79
100	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1.5	3782.99
8.	Earning Per Share (Face Value of Re. 1 each) (Not annualised)		
1	Basic	3.76	12.07
100	Diluted	3.76	12.07

	KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS						
SI.	Particulars	Three Months ended	Year ended	Quarter ended			
No.		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Refer note)			
1.	Total Income	1740.80	6553.77	1175.10			
2.	Profit before tax	561.89	1799.65	325.23			
3.	Profit after tax	420.22	1345.44	244.07			
4.	Total Comprehensive Income	420.60	1349.22	243.06			

Notes:

(a) The above is an extract of the unaudited financial results for the guarter ended 30 June 2021 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 22 July 2021 and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively.

(b) The Consolidated Financial Results of the Group includes the result of 'Shalvis Specialities Limited' which was incorporated on 18" January, 2021 as wholly-owned subsidiary company of India Pesticides Limited. Accordingly comparative consolidated results for corresponding period are not applicable and hence cannot be

(c) (i) The previous periods figures have been re-grouped / re-classified wherever required to conform to current periods classification. (ii) The Statement also includes the results for the guarter ended 31' March, 2021 and 30th June, 2020 presented based on the information complied by the management after making necessary adjustments to give a true and fair view of the results in accordance with IND AS. which have not been subjected to limited review or audit by statutory

By Order of the Board For India Pesticides Limited

Place: Lucknow Date: 22.07.2021 Anand Swarup Agarwal Chairman DIN No. 00777581

तटरक्षक ने एक बयान में बताया कि एमआरसीसी ने कंचन

की मदद करने के मकसद से उसके आस-पास मौजूद सभी

पर्याप्त टीकों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश


जबलपुर, 22 जुलाई (भाषा)।

3/29, ईस्ट पटेल नगर,

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने गुरुवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

दि फेडरल बैंक लि. प्रेडरल बैंक 3/29 ईस्ट पटेल नगर.





एस आर एफ लिमिटेड

सीआईएनः L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयुर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003 फोन: +91-124-4354400, फैक्स: +91-124-4354500 ई-मेलः cs@srf.com; वेबसाइटः www.srf.com

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 42 तथा 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार, 28 जुलाई 2021 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु समता अंशों पर प्रथम अंतरिम लाभांश की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव, यदि हो, पर विचार करने हेतु आयोजित की जाएगी।

सूचना

अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि घोषित होता है तो, उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड डेट अर्थात् शुक्रवार, 6 अगस्त 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में उपस्थित हो तथा जो नेशनल स्क्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभभोगी स्वामी होंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एस आर एफ लिमिटेड

रजत लखनपाल वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) स्थान : गुरुग्राम एवं कम्पनी सचिव तिथि : 22 जुलाई, 2021

FORM NO. URC.2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules,2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at NCT of Delhi that M/s Heyday Care LLP, a LLPmay be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited 2. The principal objects of the Company are as follows:

a) To carry on the business of manufacturing and trading of personal care products for women such as sanitary napkins, tampons, panty liners, menstrual cups, intimate wash, cloth pads, PCOS gummy bears, plant protein for women, menstrual cramp oil, intimate skin lightening serum, stretch mark removal serum etc. for hygenic and menstrual purpose and to carry on the business of as a buyer, lesser, trader, exporter, importer, purchaser, supplier and distributor of women self care products, packaging, equipments and related products in the

b) To carry on business as manufacturers, processors, importers, exporters, traders, buyers sellers, retailers, wholesalers, suppliers, stockiest, agents, sub-agents, merchants, distributors consignors, jobbers, brokers, or otherwise to deal in all kind, shapes, sizes, varieties, modalities uses, and description of a variety of mother & baby care products such as baby feeding bottle, other bottles, nipple, brush, pacifier, teether, feeder, sipper, bags, cutlery like fork spoon, plates, bowls, feeding accessories, toiletries and other bathing accessories such as powders, skin care, oils, shampoos, lotions, perfumes, wipes, tissues, bibs, nose cleaner, cloth diapers, cloth pads, baby wipes, baby top to toe wash, baby bubble bath, baby massage oil, baby soap bar, baby diaper rash cream, comb & brush, nail clipper, nail scissors, sterilizer, bottle & baby food warmers, accessories including liquid cleanser, medical & health care and safety products such as toothbrush, buds, cotton, detergent, thermometer, droppers, shoes, slippers, shocks, diapers, toys, soother, rattle, carriers, walkers, strollers. baby cots, medical appliances and devices, and every kind of baby clothing, baby food baby drinks and premium baby care products and things capable of being used in mother & baby care category whether included in the above particular descriptions or not.

c) To carry on the business of manufacturing and trading, buying, direct selling, import, export, distribute and otherwise deal in all kinds and varieties of cosmetics, non-prescribed drugs, personal care products, beauty and skin care products, perfumes, colognes, glamour products, cosmetics, perfumes and essences, dentifrices, lotions, extracts, greases, creams, salve, ointments, pomades, powders, unguents, eau de cologne, toilet requisites and preparations, cleansing compounds in India or overseas.

d) To carry on the business as manufacturers, processors, traders, importers, exporters, chemists, druggists, oil and colourman and dealers in avurvedic products/allopathic products homeopathy & siddha formulations, preparations & its derivatives, over-the-counter (OTC) products, pharmaceuticals, medicinal, chemical, diagnostic, anti-biotic, disinfectant, therapeutic preparations, substances, products, bandages, hand gloves, medical disposables, industrial & other preparations and articles, compounds, drugs, makers of and dealers in proprietary articles of all kinds, facial chemicals, cosmetic items, prickly heat powders, hair-oils, shampoos. hair-dyes, skin care products, all types of toilet or facial tissues stock, towels, male/feminine hygiene care products like sanitary napkins, baby diapers, underpads, wash products and other personal care products, eye-care products, nasal products, dental products, mouth fresheners, mouth washers, cleaning products, hand washers, essential oils, hair oils, hair washers, hair lotions, detergents, fresheners, toilet creams, toilet powders, eau-de-cologne, cologne waters, smelling salts, lavenders, scents, pomades, tooth powders, tooth pastes, toilet & washing soaps, liquid soaps, inks, spirituous preparations, denatured spirit, agarbathis. scented sticks, candles, insect repellants, etc.

e) To carry on the business as manufacturers, sellers, importers, exporters, traders and dealers in all kinds of health care products, foods, convalescent products, cereals, baby foods, chocolates, confectionary products, health fruit bars, diabetic foods, health tonics, grip mixtures, liver tonics, weigh reducing products, milk powders, glucose powders, ready to cook, pastha, noodles, spaghetti, pickles, instant masalas, curries, sauces, bread, sodas either by setting up manufacturing facilities, distribution network chains therefor or by acquisition of any other business as a going concern now being carried on by any person or persons including firms, companies which have necessary infrastructure to accomplish the

objects of the company f) To carry on the business of processors, purchasers, sellers, blenders, makers, researcher and dealers in cosmetics, perfumes, scents, sprays, nail polish, fragrances, powders, lavenders, toothpastes, tooth powder, hair oils, herbals, creams, ayurvedic and intermediates and their

inspected at the officeat 301-304, Tower-I, DLF Corporate Park, Phase-III Gurgaon - 122002,

g) To carry on Research, Development and trading of Cosmetics products, personal care products, Health Care Products and to carry on the trade of it. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No.6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), PIN Code 122050 within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy

to the Companyat its registered office. Dated this 23rd day of July 2021

Name(s) of Applicant 1. Mr. Sanjeev Dalmia 2. Ms. Deepanjali Kanoria

जांच घोटाले में गिरफ्तार आरोपी ने खोले कई राज

जनसत्ता संवाददाता देहरादून, 22 जुलाई

हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में कोरोना जांच के नाम पर हुए घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपी नलवा लैब के लिए काम करता था। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी आशीष नलवा लैब को जांच के लिए कर्मचारी और अन्य सामान उपलब्ध कराता था आरोपी आशीष कोरोना जांच का ब्योरा भी भेजने का काम देखता था।

कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच करने का काम मेला प्रशासन ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विस को दिया गया था। उस कंपनी ने आगे अन्य दो कंपनी नलवा लैब और दिल्ली के डॉ लाल

चंदानी लैब को दे दिया था। दोनों ही कंपनियों ने एक लाख से ज्यादा कोरोना की जांच की थी। उसके बाद शिकायत होने पर शासन ने जिलाधिकारी हरिद्वार को जांच करने के आदेश दिए थे। हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर कोतवाली में तीनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परे मामले की जांच के लिए एक एसआइटी गठित की थी। एसआइटी ने जांच के बाद गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवुदई कृष्णराज एस ने गुरुवार को बताया कि हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में एसआइटी को बडी कामयाबी मिली है। एसआइटी ने इस मामले में हरियाणा

निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आशीष वशिष्ठ है। इसी ने कोरोना जांच का फर्जी ब्योरा तैयार किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच के लिए मैक्स कॉरपोरेट सविर्सेज कंपनी को टेंडर दिया गया था और इन कंपनी ने हरियाणा की नलवा लैब से जांच कराई थी। आरोपी आशीष ने मैक्स और नलवा लैब के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। कुंभ मेले के दौरान आशीष ने ही श्रद्धालुओं का फर्जी ब्योरा मुहैया कराया था। पुलिस ने बड़ी छानबीन के बाद आशीष को गिरफ्तार किया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आशीष के दिए हुए ब्योरे के अनुसार नलवा लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए के बिल जमा किए थे। इसकी एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका है।

एफआइआर रद्द करने संबंधी अनिल देशमुख की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 जुलाई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में देशमुख ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआइ की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के कुछ अंशों को चुनौती दी गई थी।

इससे पहले 19 जुलाई को देशमुख ने कहा था कि मैं इस याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही ईडी के सामने अपना बयान

दर्ज कराने के लिए पेश होऊंगा। इससे पहले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए थे। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, तो माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही देशमुख से पूछताछ करेगी। कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घुस और

वसूली गिरोह मामले से जुड़े धन शोधन के मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजंसी-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया था।

मप्र में 31 अक्तूबर तक हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे सरकारी कार्यालय भोपाल, 22 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में पांच दिवस सप्ताह कामकाज की व्यवस्था 31 अक्तूबर तक के लिए बढा दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी था।

सुत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम और एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 31 अक्तुबर तक पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) कामकाज होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के 15 नए मामले दर्ज किए गए है।

एनआइए ने लश्कर-ए-मुस्तफा के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में संलिप्त होने के आरोप में गुरुवार को लश्कर-ए-मुस्तफा (एलईएम) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

प्रमुख जांच एजंसी के अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद अरमान अली (20) और मोहम्मद एहसानुल्लाह (23) सह-साजिशकर्ता थे। दोनों बिहार के सारण के निवासी हैं और बिहार से मोहाली और अंबाला में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की दो अलग-अलग खेपों के परिवहन में शामिल थे। उन्होंने बताया कि अरमान अली को बिहार में गिरफ्तार किया गया।

नए आइटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के उपयोगकर्ताओं की निजता एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों का कथित घोर उल्लंघन करने को लेकर नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से गुरुवार को जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि नए आइटी नियम असंवैधानिक हैं और ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं। अदालत ने केंद्र को शपथपत्र दायर करने के लिए समय देते हुए मामले को 13 सितंबर को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया है। बेदी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि

सोशल मीडिया मंचों को किसी शिकायत के आधार पर यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि किस सुचना को हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नए आइटी कानून यह नहीं बताते कि सोशल मीडिया मंच एसएमआई मंच पर पुरा संवाद पढ़े बिना शिकायत के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई कैसे करेंगे और सोशल मीडिया मंच के माध्यम से संग्रहीत. प्रकाशित या प्रसारित निजी जानकारी को डिक्रिप्ट (कट भाषा को सरल भाषा में बदलना) किए बिना किसी संदेश को सबसे पहले भेजने वाले का पता लगाना संभव नहीं है। याचिका में कहा गया है कि नियम तीन (1) (बी) के अनुरूप नहीं होने वाली जानकारी को हटाने के लिए आइटी कानुन के तहत अत्यधिक शक्तियां देकर लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरोधी नियमों ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं पर

भारतीयों के लिए यात्रा प्रतिबंधों म ढाल द अन्य दश: भारत

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह देश में कोरोना विषाणु की स्थिति में सुधार के मद्देनजर भारतीयों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का मुद्दा विदेशी सरकारों के समक्ष उठा रहा है। चीन, इटली और कई अन्य देशों के संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर यहां रुके हुए

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिग में कहा, 'भारत में कोविड की स्थिति में सुधार के साथ, हम भारतीयों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का मुद्दा विदेशों के साथ उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि यह आर्थिक सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण चीज है। ' उन्होंने कहा कि इस दिशा में कछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि और अधिक देश भारत से लोगों की आवाजाही को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाएंगे।

अमेरिका द्वारा भारत को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के बारे में पृछे जाने पर बागची ने कहा कि घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम तीव्र गति से जारी है और भारत टीकों के आयात की संभावना पर अपने सहयोगियों के संपर्क में है। यह पूछे जाने

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिग में कहा, 'भारत में कोविड की स्थिति में सुधार के साथ, हम भारतीयों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का मुद्दा विदेशों के साथ उठा रहे हैं हमारा मानना है कि यह आर्थिक सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण चीज है।

पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्एचओ) कोवैक्सिन को कब मान्यता देगा. उन्होंने कहा कि टीका के निर्माता भारत बायोटेक लिमिटेड ने इस महीने की शुरुआत में वैश्विक संस्था को सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ अनुरोध सौंपा है। युरोपीय संघ (ईय्) के आधे से अधिक सदस्य देशों ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित टीका कोविशील्ड को मान्यता दी है। अगले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी

ब्लिकेन की भारत यात्रा की खबरों के बारे में पुछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताा ने कहा कि इस बारे में अपडेट उपलब्ध होने पर विवरण साझा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है। समारोह पांच लगातार नजर रखने की अनुमति दी है। नीट का आयोजन दुबई में भी होगा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

शिक्षा मंत्रालय ने इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए दुबई में एक केंद्र जोडने का फैसला किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय ने घोषणा की थी कि मध्य पूर्व में भारतीय छात्र समुदाय की सुविधा के लिए कुवैत में पहली बार यह

परीक्षा आयोजित की जाएगी। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) सचिव अमित खरे ने विदेश सचिव को लिखे पत्र में यह बात कही। उन्होंने बताया, 'राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने वर्ष 2021 के दौरान कवैत शहर में पहले से ही बनाए गए एक केंद्र के अलावा दुबई में एक और केंद्र बनाने का निर्णय लिया है।' उन्होंने कहा, 'खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय को इस बारे में उपयुक्त तरीके से सूचित किया जाए। कुवैत और दुबई में भारतीय दुतावासों को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित करने में एनटीए को अपना परा सहयोग देने की यदि सलाह दी जाती है तो मैं आभारी रहंगा।' पहले एक अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को 12 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था।

www.readwhere.com

व्यापारिक पोत के चालक दल के 12 सदस्यों को बचाया गया

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

गुजरात के उमरगाम तट के पास भारतीय तटरक्षक (आइसीजी) के समन्वय से एक व्यापारिक पोत ने एक अन्य संकटग्रस्त व्यापारिक पोत के चालक दल के 12 सदस्यों को बचा लिया। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुंबई में तटरक्षक के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को बुधवार दोपहर को जानकारी मिली कि व्यापारिक पोत कंचन, चालक दल के 12 सदस्यों के साथ

गुजरात के वलसाड में उमरगाम के निकट फंस गया है। पोत में दूषित ईंधन के कारण इसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और बिजली चली गई थी।

तटरक्षक ने एक बयान में बताया कि एमआरसीसी ने कंचन की मदद करने के मकसद से उसके आस-पास मौजूद सभी पोतों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जाल को सिक्रय किया। उसने बताया कि कंचन के पास मौजूद व्यापारिक पोत हरमीज ने तत्काल जवाब दिया और वह तुरंत कंचन की ओर मुड़ गया।

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में कोंकण रेल मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को बृहस्पतिवार सुबह क्षेत्र में भारी बारिश और नदी में उफान के बाद निलंबित करना पड़ा, जिससे करीब छह हजार रेल यात्री फंस गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर व्यवधान के कारण नौ टेनों के मार्ग में बदलाव किया गया, उन्हें गंतव्य से पहले रोका गया है या रद्द कर दिया गया है।

कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनके अंदर मौजूद यात्री भी सुरक्षित हैं। उन्हें खाने-पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण रत्नागिरि

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोंकण रेल मार्ग पर 5,500–6,000 यात्री ट्रेनों में फंस गए हैं। कोंकण रेलवे ने बताया कि चिपलून में बाढ़ की रिश्रित के कारण नौ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया, उन्हें गतव्य से पहले रोका गया है या रद्द कर दिया गया है। इनमें से दादर-सावतवाडी स्पेशल ट्रेन को चिपलून स्टेशन और सीएसएमटी-मडगांव जनशताब्दी

भारी बारिश के कारण कोंकण रेल मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित

में चिपलून और कामठे स्टेशन के बीच वशिष्ठ नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाटगे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खंड पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं।

5,500-6,000 यात्री ट्रेनों में फंस गए हैं। कोंकण रेलवे ने

बताया कि चिपलून में बाढ़ की स्थिति के कारण नौ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया. उन्हें गंतव्य से पहले रोका गया है या रद्द कर दिया गया है। इनमें से दादर-सावंतवाडी स्पेशल ट्रेन को चिपलून स्टेशन और सीएसएमटी-मडगांव जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन को खेड स्टेशन की ओर मोड दिया गया है।

इन ट्रेनों में सवार यात्री सुरक्षित हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद कोंकण रेलवे यात्रियों को खाने-पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। करंदीकर ने कहा कि हमने सभी फंसे हुए यात्रियों को चाय, नाश्ता और पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था की है। कोंकण रेलवे मार्ग पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार प्रभावित हुआ है। 19 जून को पणजी के पास पुरानी गोवा सुरंग में पानी रिसने के कारण एक दिन के लिए सेवाएं निलंबित की गई थीं।

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड [कापॉरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377] पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 फोन : 011-46107318, ई-मेल : pariksha.delhi@gmail.com वेबसाइट : www.pfil.in

शेयरधारकों को 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 20 अगरत, 2021 को सुबह 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम की सूचना, जो एजीएम के आयोजन हेतु सर्कुलेट की जा रही है, में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत् आयोजित की जानी निर्धारित है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी जारी रहने को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने भी अपने सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सर्कुलर्स) के माध्यम से एजीएम का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से, सदस्यों की उभय स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बगैर, करने की अनुमति दी है। इन सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबद्ध प्रावधानों एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम 20-08-2021 को सुबह 10.00 बजे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेत् वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जानी है, जिनकी ई-मेल आईडी ज कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पहले से पंजीबद्ध हैं । सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.pfil.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम की सूचना एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। बैठक में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') उपलब्ध करा रही है ताकि वे एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सके। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से बोटिंग की सुविधा ("ई-बोटिंग") उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेत् विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है, कपया वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकत करवाने के लिए निम्नलिखित अनदेशों का पालन करें।

मौतिक धारण	भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए — कृपया आवश्यक विवरण जैसेकि फोलियों नंबर, शेयरधारक का नाम ई—मेल द्वारा panksha.delhi@gmail.com को उपलब्ध कराएं
डीमैट	अभौतिक (डीमैट) रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट

ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं वे शेयरवारक जो कट-ऑफ-डेट को शेयरों के धारक हैं, उनको एजीएम की 28वीं सूचना, लाग

कानूनों के अनुसार प्रेषण हेत्, यथासमय उनके पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजी जाएगी। वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड

(डीपी) से सम्पर्क करके अथवा pariksha.delhi@gmail.com को ई-मेल करके अपनी

स्थान : दिल्ली तिथि: 22-07-2021

INDIA PESTICIDES LIMITED

Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly - 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

CIN No.: U24112UP1984PLC006894

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

(₹ in Millions)

देवराज सिंह भदौरिया

कम्पनी सचिव

	(CIT MINIOTO)				
SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	ended		
1.	Total Income from operations	1702.94	6489.54		
200	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39		
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	561.88	1799.39		
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	420.21	1345.27		
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	420.59	1349.05		
6.	Equity Share Capital	111.79	111.79		
10.00	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	50.02.0285	3782.99		
8.	Earning Per Share				
	(Face Value of Re. 1 each) (Not annualised)	0.70	40.07		
97,55.4	Basic	3.76	50,000,000		
311	Diluted	3.76	12.07		

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE

SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Refer note)
1.	Total Income	1740.80	6553.77	1175.10
2.	Profit before tax	561.89	1799.65	325.23
3.	Profit after tax	420.22	1345.44	244.07
4.	Total Comprehensive Income	420.60	1349.22	243.06

Notes:

Place: Lucknow

Date: 22.07.2021

(a) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2021 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 22 July 2021 and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively.

(b) The Consolidated Financial Results of the Group includes the result of 'Shalvis Specialities Limited' which was incorporated on 18" January, 2021 as wholly-owned subsidiary company of India Pesticides Limited. Accordingly comparative consolidated results for corresponding period are not applicable and hence cannot be

(c) (i) The previous periods figures have been re-grouped / re-classified wherever required to conform to current periods classification. (ii) The Statement also includes the results for the quarter ended 31° March, 2021 and 30" June, 2020 presented based on the information complied by the management after making necessary adjustments to give a true and fair view of the results in accordance with IND AS, which have not been subjected to limited review or audit by statutory

By Order of the Board For India Pesticides Limited

Anand Swarup Agarwal Chairman DIN No. 00777581

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

: 18456100011372

शाला प्रबंधक. (दि फेडरल बैंक लि.)

स्पेशल ट्रेन को खेड़ स्टेशन की ओर मोड़ दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोंकण रेल मार्ग पर

कोंकण रेलवे के प्रवक्ता गिरीश करंदीकर ने बताया कि

पर्याप्त टीकों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश

जबलपुर, 22 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने गुरुवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।





स्थानः नई दिल्ली

एस आर एफ लिमिटेड

4. जसजीत सिंह

दिनांक: 23.07.2021

सीआईएनः L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003

फोन: +91-124-4354400, फैक्स: +91-124-4354500 ई-मेलः cs@srf.com; वेबसाइटः www.srf.com

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 42 तथा 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार, 28 जुलाई 2021 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु समता अंशों पर प्रथम अंतरिम लामांश की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव, यदि हो, पर विचार करने हेतु आयोजित की जाएगी।

अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि घोषित होता है तो, उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड डेट अर्थात शुक्रवार, 6 अगस्त 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में उपस्थित हो तथा जो नेशनल स्क्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभभोगी स्वामी होंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटॉ जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एसआरएफ लिमिटेड

हस्ता./-रजत लखनपाल

वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) स्थान : गुरुग्राम तिथि : 22 जुलाई, 2021 एवं कम्पनी सचिव

FORM NO. URC.2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules,2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at NCT of Delhi that M/s Heyday Care LLP, a LLPmay be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited

The principal objects of the Company are as follows: a) To carry on the business of manufacturing and trading of personal care products for women

such as sanitary napkins, tampons, panty liners, menstrual cups, intimate wash, cloth pads PCOS gummy bears, plant protein for women, menstrual cramp oil, intimate skin lightening serum, stretch mark removal serum etc. for hygenic and menstrual purpose and to carry on the business of as a buyer, lesser, trader, exporter, importer, purchaser, supplier and distributor of women self care products, packaging, equipments and related products in the

b) To carry on business as manufacturers, processors, importers, exporters, traders, buyers sellers, retailers, wholesalers, suppliers, stockiest, agents, sub-agents, merchants, distributors consignors, jobbers, brokers, or otherwise to deal in all kind, shapes, sizes, varieties, modalities uses, and description of a variety of mother & baby care products such as baby feeding bottle, other bottles, nipple, brush, pacifier, teether, feeder, sipper, bags, cutlery like fork, spoon, plates, bowls, feeding accessories, toiletries and other bathing accessories such as powders, skin care, oils, shampoos, lotions, perfumes, wipes, tissues, bibs, nose cleaner, cloth diapers, cloth pads, baby wipes, baby top to toe wash, baby bubble bath, baby massage oil, baby soap bar, baby diaper rash cream, comb & brush, nail clipper, nail scissors sterilizer, bottle & baby food warmers, accessories including liquid cleanser, medical & health care and safety products such as toothbrush, buds, cotton, detergent, thermometer, droppers, shoes, slippers, shocks, diapers, toys, soother, rattle, carriers, walkers, strollers, baby cots, medical appliances and devices, and every kind of baby clothing, baby food, baby drinks and premium baby care products and things capable of being used in mother & baby care category whether included in the above particular descriptions or not.

c) To carry on the business of manufacturing and trading, buying, direct selling, import, export, personal care products, beauty and skin care products, perfumes, colognes, glamour products, cosmetics, perfumes and essences, dentifrices, lotions, extracts, greases, creams, salve, ointments, pomades, powders, unquents, eau de cologne, toilet requisites and preparations, cleansing compounds in India or overseas.

d) To carry on the business as manufacturers, processors, traders, importers, exporters, chemists druggists, oil and colourman and dealers in ayurvedic products/allopathic products, homeopathy & siddha formulations, preparations & its derivatives, over-the-counter (OTC products, pharmaceuticals, medicinal, chemical, diagnostic, anti-biotic, disinfectant, therapeutic preparations, substances, products, bandages, hand gloves, medical disposables, industria & other preparations and articles, compounds, drugs, makers of and dealers in proprietary articles of all kinds, facial chemicals, cosmetic items, prickly heat powders, hair-oils, shampoos, hair-dyes, skin care products, all types of toilet or facial tissues stock, towels, male/feminine hygiene care products like sanitary napkins, baby diapers, underpads, wash products and other personal care products, eye-care products, nasal products, dental products, mouth fresheners, mouth washers, cleaning products, hand washers, essential oils, hair oils, hair washers, hair lotions, detergents, fresheners, toilet creams, toilet powders, eau-de-cologne cologne waters, smelling salts, lavenders, scents, pomades, tooth powders, tooth pastes, toilet & washing soaps, liquid soaps, inks, spirituous preparations, denatured spirit, agarbathis scented sticks, candles, insect repellants, etc.

e) To carry on the business as manufacturers, sellers, importers, exporters, traders and dealers in all kinds of health care products, foods, convalescent products, cereals, baby foods chocolates, confectionary products, health fruit bars, diabetic foods, health tonics, grip mixtures, liver tonics, weigh reducing products, milk powders, glucose powders, ready to cook, pastha, noodles, spaghetti, pickles, instant masalas, curries, sauces, bread, sodas either by setting up manufacturing facilities, distribution network chains therefor or by acquisition of any other business as a going concern now being carried on by any person or persons including firms, companies which have necessary infrastructure to accomplish the

objects of the company. To carry on the business of processors, purchasers, sellers, blenders, makers, researchers and dealers in cosmetics, perfumes, scents, sprays, nail polish, fragrances, powders, lavenders toothpastes, tooth powder, hair oils, herbals, creams, ayurvedic and intermediates and their

raw materials. g) To carry on Research, Development and trading of Cosmetics products, personal care products, Health Care Products and to carry on the trade of it. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No.6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), PIN Code 122050 within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Companyat its registered office. Dated this 23rd day of July 2021

inspected at the officeat 301-304, Tower-I, DLF Corporate Park, Phase-III Gurgaon - 122002,

Name(s) of Applicant 1. Mr. Sanjeev Dalmia 2. Ms. Deepanjali Kanoria

है। एसआइटी ने इस मामले में हरियाणा कंपनी नलवा लैब और दिल्ली के डॉ लाल एफआइआर रद्द करने संबंधी अनिल देशमुख की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 22 जुलाई।

जनसत्ता संवाददाता

देहरादून, 22 जुलाई

हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में कोरोना जांच

के नाम पर हुए घोटाले की जांच कर रही

एसआइटी ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की।

गिरफ्तार आरोपी नलवा लैब के लिए काम

आशीष नलवा लैब को जांच के लिए कर्मचारी

और अन्य सामान उपलब्ध कराता था आरोपी

आशीष कोरोना जांच का ब्योरा भी भेजने का

कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच करने का

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में देशमुख ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआइ की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के कुछ अंशों को चुनौती दी गई थी। इससे पहले 19 जुलाई को देशमुख ने कहा

था कि मैं इस याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही ईडी के सामने अपना बयान

दर्ज कराने के लिए पेश होऊंगा। इससे पहले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हए थे। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, तो माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही देशमुख से पूछताछ करेगी। कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घूस और

कोरोना जांच घोटाले में गिरफ्तार

आरोपी ने खोले कई राज

चंदानी लैब को दे दिया था। दोनों ही कंपनियों

ने एक लाख से ज्यादा कोरोना की जांच की

थी। उसके बाद शिकायत होने पर शासन ने

जिलाधिकारी हरिद्वार को जांच करने के आदेश

दिए थे। हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने

शहर कोतवाली में तीनों कंपनियों के खिलाफ

मुकदमा भी दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने

के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे

मामले की जांच के लिए एक एसआइटी गठित

की थी। एसआइटी ने जांच के बाद गुरुवार को

अवुदई कृष्णराज एस ने गुरुवार को बताया कि

हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच

घोटाले में एसआइटी को बड़ी कामयाबी मिली

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल

पहली गिरफ्तारी की है।

वसूली गिरोह मामले से जुड़े धन शोधन के मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजंसी-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया था।

निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आशीष वशिष्ठ है। इसी ने कोरोना जांच का फर्जी ब्योरा तैयार किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच के लिए मैक्स कॉरपोरेट सविर्सेज कंपनी को टेंडर दिया गया था और इन कंपनी ने हरियाणा की नलवा लैब से जांच कराई थी। आरोपी आशीष ने मैक्स और नलवा लैब के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। कुंभ मेले के दौरान आशीष ने ही श्रद्धालुओं का फर्जी ब्योरा मुहैया कराया था। पुलिस ने बड़ी छानबीन के बाद आशीष को गिरफ्तार किया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आशीष के दिए हुए ब्योरे के अनुसार नलवा लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए के बिल जमा किए थे। इसकी एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका है।

मप्र में 31 अक्तूबर तक हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे सरकारी कार्यालय भोपाल, 22 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौज्दा स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में पांच दिवस सप्ताह कामकाज की व्यवस्था 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी था।

सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम और एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 31 अक्तूबर तक पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) कामकाज होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के 15 नए मामले दर्ज किए गए है।

नए आइटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के उपयोगकर्ताओं की निजता एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों का कथित घोर उल्लंघन करने को लेकर नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से गुरुवार को जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि नए आइटी नियम असंवैधानिक हैं और ये लोकतंत्र के मल सिद्धांतों के विपरीत हैं। अदालत ने केंद्र को शपथपत्र दायर करने के लिए समय देते हुए मामले को 13 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

बेदी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सोशल मीडिया मंचों को किसी शिकायत के आधार पर यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि किस सुचना को हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नए आइटी कानून यह नहीं बताते कि सोशल मीडिया मंच एसएमआई मंच पर पूरा संवाद पढ़े बिना शिकायत के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई कैसे करेंगे और सोशल मीडिया मंच के माध्यम से संग्रहीत, प्रकाशित या प्रसारित निजी जानकारी को डिक्रिप्ट (कृट भाषा को सरल भाषा में बदलना) किए बिना किसी संदेश को सबसे पहले भेजने वाले का पता लगाना संभव नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि नियम तीन (1) (बी) के अनुरूप नहीं होने वाली जानकारी को हटाने के लिए आइटी कानून के तहत अत्यधिक शक्तियां देकर लोकतंत्र के मुल सिद्धांतों के विरोधी नियमों ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं पर लगातार नजर रखने की अनुमति दी है, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

इसमें कहा गया है कि नियमों के तहत, भले ही व्यक्ति नियमों के उल्लंघन के लिए किसी जांच के दायरे में नहीं हो, इसके बावजूद मध्यस्थ को बिना किसी औचित्य के उसका डेटा रखना होगा. जो उपयोगकर्ता के निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। बेदी ने अपनी याचिका में कहा कि शिकायत अधिकारी और/या मुख्य अनुपालन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ नियमों के तहत कोई अपीली प्रक्रिया मुहैया नहीं कराई गई है और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के व्यापक अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, जो आश्चर्यजनक और पूरी तरह अनुचित है।

रत्नागिरि और रायगढ़ में कई निदयां खतरे के निशान से ऊपर

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरि और रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रमुख निदयां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण अधिकारी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन दो तटीय जिलों में लगातार हो रही बारिश से पैदा हुई स्थित की बुहस्पतिवार को समीक्षा की। जगबुड़ी, विशष्ठी, कोडावली, शास्त्री, बाव समेत रत्नागिरि जिले की प्रमुख निदयां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके परिणामस्वरूप खेड़, चिपलून, लांजा, राजापुर, संगमेश्वर कस्बे और आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

सीएमओ के वक्तव्य के अनुसार पड़ोसी रायगढ़ जिले में भी इसी प्रकार कुंडलिका, अंबा, सावित्री, पाताल गंगा, गढ़ी, उल्हास सहित प्रमुख निदयां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समीक्षा बैठक के दौरान ठाकरे ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों तक इस क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मख्यमंत्री ने अधिकारियों से सतर्क रहने और उफनती निदयों के जल स्तर पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाने को कहा। उन्होंने आम जनता से भी एहतियात बरतने का आग्रह किया है। इस बीच, सीएमओ ने कहा कि सतारा जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर में बीते 24 घंटे में 480 मिमी बारिश हुई है, जिससे सावित्री और अन्य निदयों का जलस्तर बढ़ रहा है।

मुंबई-कसारा खंड पर 17 घंटे बाद रेल सेवा बहाल

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल (सीएसटीएम) से मध्य रेलवे के कसारा स्टेशन के बीच 100 किलोमीटर लंबे खंड पर बुहस्पतिवार दोपहर को 17 घंटे बाद रेल सेवा बहाल कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से पटरियों के बह जाने से इस खंड पर सेवाएं ठप हो गई थीं।

मध्य रेलवे (सीआर) के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि लंबी दुरी की रेलगाडियों को बहाल करने में कुछ समय लगेगा, फंसे हुए यात्रियों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सीएसटीएम और कसारा के बीच अपराह्न करीब तीन बजे सेवाएं बहाल की गई। उन्होंने बताया कि टिटवाला-कसारा खंड पर अंबरमाली स्टेशन के पास पटरी खिसक गई थी और पूर्वाह्न 11 बजे उसे ठीक कर लिया गया, लेकिन कालू नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की

वजह से तत्काल इस खंड पर सेवाएं बहाल नहीं की गई। सुतार ने बताया कि पूरी रात हुई बारिश की वजह से कसारा से इगतपुरी के 14 किलोमीटर लंबे पहाड़ी इलाके में छह स्थानों पर भूस्खलन और पटरी पर चट्टाने गिरने की घटनाएं होने की सूचना मिली। मुंबई से उत्तर और पूर्वी भारत के लिए रेलगाड़ियां कसारा घाट से होकर जाती हैं। सुतार ने बताया कि इस मार्ग को ठीक करने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन, दो जेसीबी, मलबा उठाने के लिए 12 वाहन और 210 कर्मचारियों को सुबह से ही लगाया गया था।

सुतार ने कहा कि घाट तक पहुंचने के लिए सड़के नहीं हैं। भारी बारिश और कई स्थानों पर पटरियों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से रेलगाड़ियों का परिचालन और मुश्किल हो गया। सुतार के मुताबिक कसारा घाट मार्ग में फंसी तीन रेलगाड़ियों को इगतपुरी ले जाया गया है। इन यात्रियों के लिए मध्य रेलवे ने एमएसआरटीसी की बसों की व्यवस्था की है।

Lucknow

www.readwhere.com